



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22]  
No. 22]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 20, 1984/आषाढ़ 29, 1906  
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 20, 1984/ASADHA 29, 1906

इत भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

लोक-सभा सचिवालय

प्रारूप 1

(राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974  
का नियम 3 देखिये)

भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचन की  
लोक सूचना

आ०अ० 42 (अ) :—भारत के उपराष्ट्रपति पद को भरने के लिये निर्वाचन करने के लिये, निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निकाल दी गई है, अतः ऐसे निर्वाचन के लिये रिटनिंग आफिसर में, सुभाष सी. काश्यप, सूचना देता हूँ कि :—

- (i) अभ्यर्थी या उनके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामनिर्देशन-पत्र निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कमरा नं० 18, निचली मंजिल, संसद भवन, नई दिल्ली में उनके कार्यालय में या यदि वह अपरिवर्जनीय रूप से अनुपस्थित हो, तो सहायक रिटनिंग आफिसर, श्री एन. एन. मेहरा, संयुक्त सचिव, लोक सभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में 3 अगस्त, 1984 के अनुपरांत (लोक श्रवकाण-दिन से भिन्न) किसी दिन 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच परिदत्त किए जा सकेंगे ;

- (ii) हर एक नामनिर्देशन-पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जायेगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

- (iii) हर अभ्यर्थी केवल दो हजार पांच सौ रुपये की राशि जमा करेगा या जमा करवायेगा। यह रकम नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करते समय रिटनिंग आफिसर के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारों खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चात्कथित दशा में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शित किया गया है कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन-पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा ;

- (iv) नामनिर्देशन-पत्रों के प्रारूप पूर्वोक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किये जा सकेंगे ;

- (v) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किये गये नामनिर्देशन-पत्रों से भिन्न नामनिर्देशन-पत्रों की संख्या उपरोक्त कार्यालय, कमरा नं. 18, निचली मंजिल, संसद भवन, नई दिल्ली में शनिवार, 4 अगस्त, 1984 को 11 बजे पूर्वाह्न की जायेगी ;

- (vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी, या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित

रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निम्न सूत्राधार-कर्ता को, उपरोक्त पैरा (i) में विनिर्दिष्ट स्थान में सोमवार, 6 अगस्त, 1984 को तीन बजे अपराह्न से पहले परिवर्तन की जा सकेगी ; \*

- (vii) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में मतदान, इन नियमों के अधीन नियत किये गये मतदान के स्थान में बुधवार, 22 अगस्त, 1984 को 10 बजे पूर्वाह्न और 4 बजे अपराह्न के बीच होगा।

[सं० 42/1/84-टी०]

सुभाष सी. काश्यप,

सहासचिव, लोक सभा

तथा

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिये

रिटनिंग आफिसर

नई दिल्ली ;

दिनांक, 20 जुलाई, 1984

## LOK SABHA SECRETARIAT

### FORM 1

[See rule 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974]

### PUBLIC NOTICE

### OF

### ELECTION TO THE OFFICE OF VICE-PRESIDENT OF INDIA

O.N. 42(E).—Whereas a notification under sub-section (1) of section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, for the holding of an election to fill the office of Vice-President of India has been issued by the Election Commission, I, Subhash C. Kashyap, the Returning Officer for such election, do hereby give notice that—

- (i) nomination papers may be delivered by a candidate or any one of his proposers or seconders to the undersigned at his office in Room No. 18, Ground Floor, Parliament House, New Delhi, or if he is unavoidably absent, to the Assistant Returning Officer, Shri N. N. Mehra, Joint Secretary, Lok Sabha Secretariat, at the said office between 11 a.m. and 3 p.m. on any day (other than a public holiday) not later than the 3rd August, 1984;

- (ii) each nomination paper shall be accompanied by a certified copy of the entry relating to the candidate in the electoral roll for the Parliamentary constituency in which the candidate is registered as an elector;

- (iii) every candidate shall deposit or cause to be deposited a sum of rupees two thousand five hundred only. This amount may be deposited in cash with the Returning Officer at the time of presentation of the nomination paper or deposited earlier in the Reserve Bank of India or in a Government Treasury and in the later case a receipt showing that the said deposit of the sum has been so made is required to be enclosed with the nomination paper;

- (iv) forms of nomination papers may be obtained from the above said office at the times aforesaid;

- (v) the nomination papers, other than those rejected under sub-section (4) of section 5B of the Act, will be taken up for scrutiny at the said office in Room No. 18, Ground Floor, Parliament House, New Delhi on Saturday; the 4th August, 1984 at 11 a.m.;

- (vi) the notice of withdrawal of candidatures may be delivered by a candidate, or any one of his proposers or seconders who has been authorised in this behalf in writing by the candidate, to the undersigned at the place specified in paragraph (i) above before three o'clock in the afternoon of Monday, the 6th August, 1984;

- (vii) in the event of the election being contested, the poll will be taken on Wednesday, the 22nd August, 1984 between the hours of 10 a.m. and 4 p.m. at the place of polling fixed under the rules.

[No. 42/1/84-T]

SUBHASH C. KASHYAP,

Secretary-General, Lok Sabha

and

Returning Officer for the  
Vice-Presidential Election.

NEW DELHI;

Dated, the 20th July, 1984.